



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 782 राँची, शुक्रवार,

11 अक्टूबर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 सितम्बर, 2019

विषय- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत सम्पोषित 57989.33 लाख रु० की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज-2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त विभागीय संकल्प संख्या-3770 दिनांक-13.09.2019 में संशोधन के संबंध में।

संख्या- 05/जलापूर्ति/धनबाद/02/2019/न०वि०आ०-4017-- राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-11.09.2019 की बैठक में मद संख्या-22 अन्तर्गत प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-3770 दिनांक-13.09.2019 द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत सम्पोषित 57989.33 लाख रु० की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज-2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3770 दिनांक-13.09.2019 की कंडिका-20 में प्रावधान किया गया था कि “उक्त योजना प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक-11.09.2019 की बैठक में इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) कोष से समस्त प्राक्कलित राशि एकमुश्त नगर विकास एवं आवास विभाग के शीर्ष 8782 Deposit Head में हस्तान्तरण करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करायी जाय।”

3. कालान्तर में यह प्रकाश में आया कि योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित शीर्ष 8782 Deposit Head वास्तव में Remittance Head है एवं इस शीर्ष से राशि की निकासी केवल PWD विभागों द्वारा ही की जा सकती है एवं एक निश्चित अवधि तक अनुपयोगी रहने के उपरान्त यह राशि स्वतः ही व्ययगत (Lapse) हो जाएगी। साथ ही, राशि के व्ययगत होने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन प्रभावित होगा। साथ ही तत्काल पाँच (05) वर्षों तक योजना के संचालन एवं संपोषण (O&M) शुल्क 147,91,97,593 रु० छोड़कर, योजना कार्यान्वयन की राशि 431,97,35,097 रु० विभाग को हस्तांतरित करने की ही आवश्यकता है।

4. अतः विभागीय संकल्प संख्या-3770 दिनांक-13.09.2019 की कंडिका-20 को निम्न रूप से संशोधित किया गया है:-

"उक्त योजना प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) कोष से तत्काल योजना कार्यान्वयन की समस्त राशि 431,97,35,097 रुपये एकमुश्त नगर विकास एवं आवास विभाग के Civil Deposit Head- 84430010200010101 में हस्तान्तरण करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करायी जाय।"

5. उक्त संशोधन को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.09.2019 की बैठक में मद संख्या 13 अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. विभागीय संकल्प संख्या-3770 दिनांक-13.09.2019 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
